



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 अग्रहायण 1934 (श0)

(सं0 पटना 679) पटना, बृहस्पतिवार, 20 दिसम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

18 दिसम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-04/2012/10049—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है,

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल का निर्वाचन उसकी उपविधियाँ, बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के संगत प्रावधानों के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया है,

और, चूँकि उपर्युक्त निगम के निदेशक मंडल हेतु अध्यक्ष सहित कुल 14 निदेशक के पदों के लिए निर्वाचन कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-1** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल (अध्यक्ष सहित) के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 20.01.2013 (रविवार) की तिथि नियत करता है तथा निगम के डेलीगेटों से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/नियमावली/ उपविधियाँ तथा प्राधिकार के निदेशों के अधीन निदेशक मंडल के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि उक्त समिति की अंतिम मतदाता सूची दिनांक 30.09.2012 की कट-ऑफ तिथि के आधार पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 08.12.2012 को प्रकाशित की जा चुकी है।

निगम के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 24.12.2012 को संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

सर्विरोध निर्वाचन की स्थिति में निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना के निदेशक मंडल के पदधारकों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	24.12.2012 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	-	09.01.2013 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	-	10.01.2013 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से लगातार
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	-	11.01.2013 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	20.01.2013 (रविवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	-	20.01.2013 (अपराह्न 3-4 बजे से)

परिशिष्ट-2

समिति निर्वाचन

प्रपत्र-1

सूचना का प्रपत्र

बिहार राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम लिमिटेड,, निबंधन संख्या....., पताके निदेशक मंडल का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम).....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	01
निदेशक	13 पद

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....(स्थान का नाम).....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)..... 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है। (नामांकन पत्र दाखिल की तिथि)

- (iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तक
.....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
- (iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं
(स्थान का नाम)
लगातार चलती रहेगी।
- (v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्नबजे के पूर्व तकपर दाखिल
(स्थान का नाम)
की जा सकती है।
- (vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को 07 बजे पूर्वाह्न से 02 बजे अपराह्न तक होगा।
(स्थान का नाम)
- (vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

स्थान-

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 679-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>